MUNJAL SHOWA LIMITED

Registered Office & Works: 9-11, Maruti Industrial Area, Sector - 18, Gurugram - 122 015 (Haryana) INDIA E-mail: msladmin@munjalshowa.net Website: www.munjalshowa.net

Corporate Identity Number: L34101HR1985PL0020934, PAN: AAACM0070D

Phone: 0124-4783000

August 10, 2022

The D.G.M. (Listing)
Corporate Relation Department
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001
Security Code: 520043

The Asst. Vice President
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051
Security Code: MUNJALSHOW

Sub: Submission of Newspaper Advertisement for Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2022 under Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, please find enclosed herewith the copy of Newspaper advertisement published in newspapers viz. "Mint" in English language on August 10, 2022 and "Hindustan" in Hindi Language on August 10, 2022 for Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2022.

Kindly take the aforesaid information on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,

(Neha Bansal)

Company Secretary & Compliance Officer

For MUNJAL SHOWA LIMITED

Encl: as above





Fed bond-runoff might end well before Powell timeline

Two camps of economists and strategists have emerged predicting an early end, at some point in 2023

Bloomberg

feedback@livemint.com

he Federal Reserve is penciling in at least another couple of years of running down its bond portfolio of around \$8 trillion. But observers are increasingly predicting it will end a whole lot sooner than

Even before the Fed's balancesheet runoff plan, known as quantitative tightening, gets up to full speed in September — at a monthly clip of up to \$95 billion, or over \$1.1 trillion a year — two camps of economists and strategists have emerged predicting an early end, at some point in 2023.

One group says the central bank will have to abandon QT as early as next year, when it turns to cutting rates to combat an economic downturn - unwinding some of the aggressive monetary tightening now under way to combat hot inflation.

'The Fed will want to ensure their policy tools are rowing in the same direction," said Matthew Luzzetti, chief US economist at Deutsche Bank AG. "They won't want to be sending mixed signals," said Luzzetti, who predicts the Fed will both start cutting rates and end QT in September

A second group sees an early end for reasons not unlike those that drove the Fed to halt its last effort at QT, in 2019: essentially, taking too much liquidity out of the US banking system. Scarcity in bank reserves is blamed for causing turmoil in financial markets back then, the only other experience the Fed and investors had

The \$95 billion monthly maximum reduction in the Fed's portfolio -\$60 billion of Treasuries and \$35 billion of mortgage securities — will be



almost double the cap of \$50 billion

By early 2023, the Fed will be at risk of overdoing it, according to strategists at Barclays Plc.

An early tapering or end to the program could remove some of the upward pressure on long-term Treasury yields by reducing the extra amount of debt that the federal government would need to raise from the private sector. Treasuries would also likely outperform similar-maturity swaps, said Priva Misra, global head of rates strategy at TD Securities, which sees the Fed cutting rates and ending QT next July.

Fed Chairman Jerome Powell said

last month that the central bank's model "would suggest that it could be between two, two and a half years" for the balance sheet to get to a "new equilibrium." The balance sheet more than doubled during the pandemic, to almost \$9 trillion earlier this year, as the Fed again used quan-

titative easing as a crisis-fighting tool. Not everybody disagrees with Powell's suggested timeline.

"With our view that the Fed will have to raise rates to 5% in 2023 and stay at that level due to sticky inflation, it means that there is considerable room in 2024 to reduce interest rates before needing to resort to balance-sheet expansion again," says

Anna Wong, chief US economist The scheduled pace would see the Fed's balance sheet shrink to \$6.5 trillion by the first quarter of 2025, estimated Jay Bryson, global economist

"If the economy does go into recession the Fed will stop QT well short of reaching that \$6.5 trillion level," Bryson said. "And arguably, depending on how bad the recession is they could even start to do QE again,' though that's not what he's forecasting now.

Just as there are marked disagreements over how much more the Fed will raise rates, how damaging a possible US recession may be and where inflation is headed over the next year or two, there are many scenarios for

Making things all the tougher to game out is the complexity of the mechanism, which sees the Fed let some bonds mature without replacement — forcing the Treasury to sell more debt to the private sector, which in turn drains liquidity from the financial system. For now, the Treasury has been cutting note and bond sales, largely to boost issuance of in-demand bills. That liquidity can be drained ultimately in two ways: either from bank reserves parked at the Fed, or a drawdown of money funds placed in the Fed's so-called reverserepo facility, or RRP.

Because the RRP is less directly connected to the banking system, analysts considered it wouldn't be as impactful if Fed QT ended up draining that first. It also has more than \$2 trillion of cash parked in it, on an overnight basis, from money-market and other funds

But lately, some Fed watchers have switched to thinking QT will have more of an impact on bank reserves, potentially forcing an early end. Stocks slid in December 2018 when some traders said the Fed was taking too much out of the system, and the repo market was roiled the following summer.

"The drainage of reserves is very aggressive," said Pablo Villanueva, a senior US economist at UBS Securities "That will lead the Fed to have to stop QT or slow down QT earlier than originally planned," he said, predicting a winding down as soon as late 2023.

Derek Tang, an economist at LH Meyer in Washington, said one option for the Fed next year could be to keep offloading its mortgagebacked securities at pace, while slowing the runoff of Treasuries.

Taiwan calls China drills, preparation of possible invasion

feedback@livemint,com

hina used US House Speaker Nancy Pelosi's visit to Taipei as a pretext to prepare for a possible Taiwan invasion and expand its control throughout the region, the island's foreign minister said, adding Beijing had been planning the move for some time.

China's recent military drills in the seas and air around Taiwan were aimed at changing the status quo in the Strait, Joseph Wu said at a briefing in Taipei on Tuesday, adding that the activity fueled concern Beijing may proceed with an actual invasion.

"The median line of the Taiwan Strait has kept the status quo in the strait for decades, and it's a symbol of the status quo in the strait," said Wu. "This fact has been harmed for the past few days due to the Chinese drills, which affect regional peace, stability, and especially Taiwan's security.'

China's ambitions don't stop at Taiwan, Wu warned Beijing is determined to exert control over the East and South China seas at either end of the Taiwan Strait, making the whole area its internal waters, he added. "I'm sure these Chinese activities are making our friends like Japan very nervous and making our Southeast Asian friends very nervous as well," he said. "We are in the same boat.

Chinese Foreign Ministry Spokesman Wang Wenbin called the ongoing drills a "warning to the provocateur," at a news briefing in Beijing on Tuesday, in a veiled reference to the US which China blames for inflaming current tensions. He declined to say whether such military exercises near



Joseph Wu, Foreign Minister of

Taiwan were a "new normal." China sent more than 120 aircraft across the median line from Wednesday to Sunday. Taiwan responded by deploying aircraft and vessels, issuing radio warnings and deploying land-based missile systems to monitor the activities.

The Taiwanese Defense Ministry said it detected 45 Chinese warplanes and 10 warships around the island through 5:00 p.m. Tuesday, with 16 PLA jets having flown through the median line of the Taiwan Strait.

China's military for the second day running announced new exercises near Taiwan on Tuesday, as Beijing keeps up pressure on the island past an initial set of provocative drills in the wake of Pelosi's visit. Beijing denounced her trip as a violation of the US's pledge 50 years ago not to formally recognize the government of Taiwan, which China claims as its territory.

Reiterating the government's stance that Taiwan and China are separate jurisdictions with neither subordinate to the other, Wu said China's military actions violated the island's rights under international law, but that Taipei would remain calm.

MUNJAL SHOWA

MUNJAL SHOWA LIMITED

CIN: L34101HR1985PLC020934 Registered Office & Works: Plot No. 9-11, Maruti Industrial Area

Sector-18, Gurugram-122015 (Haryana), Tel.:+91-124-4783000 | Fax:+91-124-2341359 Email: pgupta@munjalshowa.net | Website: http://www.munjalshowa.net

EXTRACT OF THE STATEMENTS OF FINANCIAL RESULTS FOR TH

IE FIRST QUARTER ENDED JUNE 30, 20)22
(₹ in Lakhs, except per equity share o	lata)

S. No.		3 months ended	Year ended	3 months ended
	Particulars Particulars	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1.	Total Income from operations	31,774.10	1,05,994.62	19,658.32
2.	Net Profit for the period before tax and exceptional items	667.97	1,387.61	(280.22)
3.	Net Profit for the period before tax and after exceptional items	33.77	1,387.61	(280.22)
4.	Net Profit for the period after tax and after exceptional items	30.48	1,215.02	(222.65)
5.	Total comprehensive income for the period (after tax)	60.41	1,398.99	(222.65)
6.	Equity Share Capital	799.93	799.93	799.93
7.	Reserves excluding revaluation reserve as on March 31, 2022	-	_	-
8.	Earnings Per Share (after extraordinary item/s) (of Rs. 2/- each)	2.00	2.00	2.00
	Basic: (In rupees)	0.08	1.76	(0.56)
	Diluted: (In rupees)	0.08	1.76	(0.56)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.munjalshowa.net.

For and on behalf of the Board

(Yogesh Chander Munjal) Place : Gurugram Chairman & Managing Director Dated: August 9, 2022 **DIN 00003491**



at Wells Fargo & Co.

Ref. No.: Hort/2022-23/493 Dated: 04.08.2022 **E-TENDER NOTICE**

License Space for Nurseries in Greater Noida

based on performance in 1-year increments) Detailed RFP document is available on the E-Procurement Portal of Government of UP (https://etender.up.nic.in) from16.08.2022. The bid start date will be 16.08.2022. The prebid conference will be held on 19.08.2022 (01:00 pm) on Zoom (Meeting ID: 864 9042 4897; Passcode: 123456).

List of Nurseries available on License

Sr.	Location of the Nursery	Area (in sqm)	Reserved Price (exclusive of GST)* (INR per sqm per year)	
1.	G-1, Alpha-l	15,769.65	37.94	
2.	G-4, Alpha-II	23,758.92	37.94	
3.	NR-1, Phi-IV	8,000.00	37.94	
4.	NR-2, Phi-IV	8,100.00	37.94	
5.	NR-3, Phi-IV	8,200.00	37.94	
6.	NR-4, Phi-IV	7,200.00	37.94	
7.	NR-5, Phi-IV	6,300.00	37.94	
8.	NR-6, Phi-IV	6,000.00	37.94	
9.	NR-7, Phi-IV	6,200.00	37.94	
10.	NR-8, Phi-IV	6,200.00	37.94	
11.	NR-9, Phi-IV	6,500.00	37.94	
12.	NR-10. Phi-IV	6.300.00	37.94	

Interested Applicants are required to apply online on the E-procurement website on or before 30.08.2022, 05:00 pm (IST). The bid opening will be on 01.09.2022, 11:00 am (IST). In case of any queries, the Bidders are invited to contact Senior Manager (Horticulture), GNIDA. Emailsmhorticulture@gnida.in; Phone: +91 1202336015

> General Manager (Horticulture) Follow Us On (a) (b) (a) (Official GNIDA)



Intelligent lifestyle. No offence intended to any Page 3.

The much-loved Saturday supplement

that shines a brilliant light on all things lifestyle and cerebral.

INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE Palika Plaza (Phase II), 1st Floor, Indore, E-mail: rddc_imc@yahoo.co.in **Project Cell**

NIT No.: 01/Project/

TENDER NOTICE

Online Percentage rate tenders based on MPUADD ISSR Dated 02.08.2021/BOQ Rates (including all amendment till the date of NIT) are invited for following work. Tender forms may be purchased online by the contractors registered in appropriate class in centralized registration of M.P.P.W.D.

S.N.	Name of Work	Estimated Cost of Work (₹)	Cost of Tender Form (₹)	Earnest Money Deposit (₹)	Completion Period
1	Interior, Acoustics, Electrical and HVAC work of Parishad Hall in New Building at Indore Municipal Corporation Campus, Indore.	₹ 4,42,01,500/-	₹ 15,000/-	₹ 2,21,008/-	5 Months

- 1. Last date for Purchase and Submission of Tender 2. Pre bid Meeting
- 12/09/2022 22/08/2022

14/09/2022

- at office of Superintending Engineer (Project Cell) 101, 102 Palika Plaza, Phase-II, MTH compound Indore at 04:00 PM
- 3. Technical bid will be Opened online
- 4. Amendment to NIT, if any, would be published on website only.
- 5. GST will be paid extra as applicable as per govt. circulars to the contractor. All other taxes will be paid by the
- 6. Tender document and other details shall be available on: Website: www.mptenders.gov.in
 - Superintending Engineer Indore Municipal Corporation, Indore

As nutritious as soup. And just as easy to digest.

Easynomics

A Weekly newsletter by Vivek Kaul

- Covers big economic issues
- Focuses on impact on daily lives

To subscribe, scan this code or login

Complimentary for limited time

livemint.com/newsletters









FOR LEADERS OF THE NEW ORDER

घबराएं नहीं, आयकर रिटर्न को संशोधित करना है काफी आसान

भरने के बाद सबमिट बटन पर

अब अगर यह अनुरोध (रिक्वेस्ट)

सबमिट हो गई है तो आपको

🔳 इससे संबंधित मेल भी आपकी

मेल आईडी पर प्राप्त होगा

सक्सेस मैसेज दिखाया जाएगा

क्लिक करें

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरना और संशोधित करना अब काफी आसान कर दिया गया है। ऐसे में सही समय पर और बेहद सावधानी से रिटर्न भरना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें छोटी सी चुक आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसके लिए आपको आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है। साथ ही यदि रिफंड बनता है तो वह भी फंस सकता है। यदि रिटर्न भरने में आपसे कोई गलती हो गई है तो बेहद आसान तरीकों से उसे संशोधित कर सकते हैं।

घरबैठे चंदकदम में कर सकते हैं यह काम

 सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax

.gov.in/iec/foportal/ पर इसके बाद आपको ई-फाइल मेन्यू के विकल्प पर विलक करना है

और रेक्टिफिकेशन लिंक पर विलक करना है 🔳 यहां आपको ड्रॉप डाउन मेन्य से ऑर्डर/इंटिमेशन टू रेक्टीफाई विकल्प से आकर्लन वर्ष का चयन

🔳 इसके बाद आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। यहां आप अपने सुधार की वजह चुन

🔳 यहां अपडेट की गई जानकारी

अनुरोध स्थिति जानें

 आपने अगर आईटीआर में संशोधन किया है तो आप उसका स्टेटस भी बेहद आसानी से देख सकते हैं

 इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://

www.incometax.gov.in/ iec/foportal/ पर जाना होगा इसके बाद आपको यहां मार्ड

अकाउंट मेन्यू में व्यू ई-फाइल

रिटर्न/फॉर्म्स का विकल्प दिखाई 🔳 यहां ड्रॉपडाउन सूची से रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट विकल्प

चुनें और फिर सबमिट करें इंसके बाद आप अपने अनुरोध की स्थिति देख सकते हैं

से आईटीआर पर पांच लाख से कम आय पर

देरी पर जुर्माना आयकर विभाग के आंकड़ों के

मुताबिक ३१ जुलाई २०२२ तक करीब ५ .८३ करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए, जिनमें से 72.42 लाख रिटर्न आखिरी दिन दाखिल किए गए। इसके बावजूद काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो किसी वजह से आईटीआर समय से नहीं दाखिल कर पाएं हैं। ऐसे लोग जिनकी आय पांच लाख से कम है वह एक हजार रुपये जुर्माना और जिनकी आय पांच लाख रुपये से अधिक है वह पांच हजार रुपये का जुर्माना देर आईटीआर भर सकते हैं।

गैस की खुदरा कीमतों में अप्रैल 2020

की तुलना में 41 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की

गई हैं जबकि इस दौरान वैश्विक बाजार

में एलपीजी के मानक अनुबंध का भाव

सरकार द्वारा राज्यसभा में दी गई एक

जानकारी के अनुसार इस दौरान

एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम गैस)

के वैश्विक बाजार के मानक सऊदी

अनुबंध का मूल्य अप्रैल 2020 के

तीन गुना हो गया।

एलपीजी का दाम सवा दो

साल में 41 प्रतिशत बढ़ा

हजार रूपये जुर्माना देर से आईटीआर पर पांच लाख से अधिक आय पर

रिटर्न का 30 दिन में ही कराना होगा सत्यापन

आयकर रिटर्न जमा करने के बाद

उसके सत्यापन की समयसीमा को 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। समससीमा में कटौती का प्रावधान एक अगस्त से ही लाग् हो गया है। आईटीआर के सत्यापन फॉर्म को जमा करने या उसके ई-सत्यापन की समयसीमा अब रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिन की होगी। तय समयसीमा में सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो आयकर विभाग उसे अवैध घोषित कर देता है।

में एलपीजी की कीमत में 203 प्रतिशत

की वृद्धि दर्शाता है। इसी दौरान भारत में

14.2 किलो के घरेलू एलपीजी

सिलेंडर के दाम 41.5 प्रतिशत बढ़े

और इसका भाव 744 रुपये से बढ़कर

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने

बताया कि सरकार ने एलपीजी की

प्रभावी घरेल कीमतों को संशोधित

किया है। उज्ज्वला योजना के तहत

दिए गए एलपीजी कनेक्शनों में महामारी

में तीन सिलेंडर मुफ्त में भरे गए थे।

1,053 रुपये पर पहुंच गया।

श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने ब्याज दरें बढ़ाई

नई दिल्ली। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी ने सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज दरों में 0 .50 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। नई दरें 10 अगस्त से प्रभावी होंगी नई ब्याज दरें 12 से 60 महीने की जमा पर लागू होंगी। विभिन्न अविध वाली सावधि जमा दरों में प्रतिवर्ष 0 .25 प्रतिशत से 0 .50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ, ग्राहक एफडी पर ८ .७५ प्रतिशत तक का ब्याज पा सकेंगे।

ओयो ने डेनमार्क की कंपनी का अधिग्रहण किया

नई दिल्ली। यात्रा एवं आतिथ्य क्षेत्र के प्रौद्योगिकी मंच ओयो ने मंगलवार को कहा कि उसने डेनमार्क स्थित हॉलिडे होम ऑपरेटर बॉर्नहोम्स फेरिह्यज का अधिग्रहण किया है।ओयों ने हालांकि, इस सौदे की रकम का खुलासाँ नहीं किया है। डेनमार्क के बॉर्नहोम द्वीप में स्थित बॉर्नहोम्स फेरिह्युज 737 हॉलिडे होम का संचालन करती है।

एचडीएफसी को एनएचबी से विलय की मंजूरी

नई दिल्ली। आवासीय ऋण प्रदाता एचडीएफसी लिमिटेड को अपने सहायक एचडीएफसी बैंक के साथ विलय के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से मंजुरी मिल गई ह कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि एनएचबी ने एचडीएफसी की दो सहायक कंपनियों- एचडीएफसी इंवेस्टमेंट्स और एचडीएफसी होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ विलय को भी मंजूरी दे दी है।

एचपीसीएल, होंडा मोटर का बैटरी के लिए करार

नई दिल्ली। हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) ने अपने पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहर्नों के लिए बैटरी अंदला–बदली स्टेशन स्थापित करने के लिए होंडा मोटर के साथ हाथ मिलाने की घोषणा की है। होंडा मोटर की अनुषंगी इकाई होंडा पावर पैक एनर्जी इंडिया और एचपीसीएल के बीच हुए इस करार के तहत बेंगलुरु में पहले ई-स्वैप स्टेशन की शुरुआत भी हो गई है।

सिक्योरक्लाउड टेक्नोलॉजीज पर प्रतिबंध

नई दिल्ली। सेबी ने वित्तीय विवरणों में कथित हेराफेरी को लेकर सिक्योरक्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और तीन व्यक्तियों को प्रतिभति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। नियामक ने सुरेश वेंकटचारी, आरएस रमानी और गुरुमूर्ति जयरामन पर सेबी में पंजीकृत किसी भी संस्था या कंपनी के साथ जुंडने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

ब्रिटेन के साथ व्यापार करार पर बढ़ रही बातचीत



नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कह कि भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते में तेजी से प्रगति हो रही है। दोनों देशों के बीच समझौते का मकसद द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को गति देना है। गोयल ने कहा कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ रिकॉर्ड समय में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए और अब ब्रिटेन से बातचीत आगे बढ़ रही है।

बिग स्पून ने निवेशकों से 100 करोड़ रूपये जुटाए

मुंबई। क्लाउँड किंचन स्टार्टअप बिग स्पून ने आईएएन और एनबी वेंचर्स के र्नेतृत्व वाले निवेश दौर में 100 करोड़ रुपये का वित्तपोषण जुटाया है । बिग स्पून ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय ने भी इस

एमजी मोटर की कौशल विकास के लिए नई पहल

नई दिल्ली। एमजी मोटर ने सारथी योजना के तहत अपने ग्राहकों के लिए चालकों को प्रशिक्षण देकर उनका कौशल बढ़ाने का अभियान शरू किया है। यह एमजी की कारों में पेश की जाने वाली नई तकनीक से चालकों को परिचित कराता है। कंपनी यह सुविधा मुफ्त में दे रही है।

म्यूचुअल फंड उद्योग की रिपोर्ट, सोने में निवेश घटा पर खातों की संख्या में इजाफा

गोल्ड ईटीएफ से जुलाई माह में 457 करोड़ रुपये की निकासी

नई दिल्ली, एजेंसी। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) से जुलाई, 2022 के दौरान 457 करोड़ रुपये की निकासी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने में निवेश को लेकर जुलाई में निवेशकों का रुख नरम पड़ा है। निवेशकों ने अपना पैसा अन्य परिसंपत्ति वर्गों में लगाया जिसके कारण यह निकासी हुई है।

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों के अनुसार, जून, 2022 में ईटीएफ में 135 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया था। बढ़ती ब्याज दरों के कारण गोल्ड ईटीएफ से निवेशकों ने निकासी की है। इससे गोल्ड ईटीएफ में प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां घटकर 20,038 करोड़ रुपये रह गई हैं।

दुबई , एजेंसी। ईरान ने इस सप्ताह

क्रिप्टोकरंसी में एक करोड़ डॉलर

मुल्य के सामान के आयात के लिए

अपना पहला आधिकारिक आदेश

दर्ज किया है। अर्ध-आधिकारिक

तस्नीम एजेंसी ने उद्योग, खान और

कहा है कि भारत पांच अरब डॉलर की आर्थव्यवस्था

बनने के लक्ष्य पर 2026-27 तक प्राप्त कर सकता

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से वृद्धि

की राह को क्षति पहुंचने के कारण इस लक्ष्य में दो

है। यह मौजूदा आकार का करीब दोगुनी है।

से तीन साल की देरी हो रही है।

एयरटेल की 5जी

नई दिल्ली, एजेंसी। दूरसंचार

कंपनी भारती एयरटेल इसी

महीने से 5जी सेवाएं शुरू करने जा रही है। कंपनी का

लक्ष्य मार्च, 2024 तक देश

के सभी शहरों तथा प्रमुख

ग्रामीण क्षेत्रों में 5जी सेवाएं

शुरू करने का है। कंपनी के

प्रबंध निदेशक और सीईओ

गोपाल विट्टल ने यह

उन्होंने यह भी कहा कि देश

में मोबाइल सेवाओं की कीमत

काफी कम है और इसे बढाए

जाने की जरूरत है। विट्टल

ने कहा, हमारा *5*जी सेवाएं

अगस्त से शुरू करने का इरादा

है। जल्दी ही इसे देशभर में

उपभोक्ताओं की

घरेलू खपत बढ़ी

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के

34 फीसदी उपभोक्ता चाहते हैं सरकार महंगाई का सख्ती

से मुकाबला करे जबकि 28 फीसदी का मानना है कि

रोजगार का अवसर बढ़ना

्एक्सिस माई इंडिया ने भारत

उपभोक्ता भावना सूचकांक

के अपने नवीनतम निष्कर्ष में

यह बात कही है। अगस्त की रिपोर्ट से पता चलता है कि

समग्र घरेलू उत्पाद, आवश्यक

उत्पाद, स्वास्थ्य उत्पाद और

मीडिया खपत, में उपभोग बढ़ा

है। यह भी पता चलता है कि

34 फीसदी उपभोक्ता अभी

भी मुद्रास्फीति को लेकर

चिंतित हैं। 28% उत्तरदाता

चाहते हैं कि रोजगार के

अवसर बढ़ें।

चाहिए।

पहुंचाया जाएगा।

जानकारी दी।



क्या है गोल्ड ईटीएफ

यह म्यूचुअल फंड का हिस्सा है। इसकी खरीदारी युनिट में की जाती है। इसे शेयरों की तरह कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। इसको बेचने पर सोना नहीं मिलता बल्कि उस समय सोने के दाम के बराबर राशि मिलती है। एक युनिट एक ग्राम सोने के दाम के बराबर

घबराहट में न बेचें

आईआईएफएल के उपाध्यक्ष अनज गुप्ता का कहना है कि निवेशकों को गोल्ड ईटीएफ को घबराहट में या शेयरों में तेजी का लाभ लेने के लिए इससे निकासी नहीं करनी चाहिए। चीन-ताडवान तनाव के महेनजर सोने की कीमतों में तेजी की उम्मीद है। भारत में त्योहारी सीजन आने वाला है जिससे कीमतें बढेंगी।

निवेश आया था इस साल जुन महीने में

पहुंच गई गोल्ड ईटीएफ फोलियों की संख्या

संख्या में जुलाई माह में

कहां कितना निवेश

गोल्ड इटीएफ	20,038
ईएलएसएस	1.47,910
मल्टीकैप फंड	59,303
लॉर्ज कैप फंड	2,31,851
मिड कैप फंड	168438
स्मॉल कैप फंड	113,332
फोकस फंड	99,933
🔳 (आंकड़े करोड़ रुप	ये में, अवधि
(आंकड़े करोड़ रुप जुलाई 2022 तक, स्रो	त एम्फी)

236 डॉलर प्रति टन के मुकाबले जुलाई 2022 में 725 डॉलर प्रति टन देश का चाय निर्यात

सात प्रतिशत बढा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत का चाय निर्यात चालु कैलेंडर वर्ष के पहले पांच माह में लगभग सात प्रतिशत बढ़कर 7.86 करोड़ किलोग्राम हो गया।

चाय बोर्ड के अनुसार जनवरी से मई, 2021 की अवधि में निर्यात करीब 7.32 करोड किलोग्राम रहा था। पहली बार संयुक्त अरब अमीरात ने 1.31 करोड़ किलोग्राम चाय खरीदी है।

भारत से 8.5 लाख पर्यटक दुबई पहुंचे मुंबई, एजेंसी। दुबई जाने वाले

भारतीय पर्यटकों की संख्या वर्ष 2022 की पहली छमाही में दोगुना से भी अधिक होकर 8.58 लाख हो गई।

दुबई के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन विभाग ने म्एक बयान में कहा कि एक साल पहले की समान अवधि में भारत से दुबई पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 4.09 लाख थी।

ईरान ने क्रिप्टो से पहला आयात आदेश दिया

के हवाले से यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि क्रिप्टोकरंसी का उपयोग करके ऑर्डर आधिकारिक आयात पंजीकरण पुरा किया गया। ईरान ने

अमेरिकी प्रतिबंधों द्वारा सीमित अन्य देशों के साथ डॉलर की बजाय क्रिप्टोरंसी में व्यापार करने का कदम उठाया है। हालांकि, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है यह लेनदेन किस क्रिप्टोकरंसी में हुई है।

'जीडीपीचारसालमें दोगुनी होगी' बेंगलरु, एजेंसी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने



DISTRIBUTOR REQUIRED 9810298230



WHOLESALE RATE

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय भोपाल क्रमांक/गु.नि./126388/2022-23/155 भोपाल, दिनांक 08.08.2022

प्रदेश में गेहूं, धान एवं अन्य उपजों के उपार्जन के समय स्वीकार किये जाने के पूर्व गुणवत्ता का परीक्षण किये जाने के लिए 'सर्वेयर' की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

कार्पोरेशन द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रदेश में गेहूं, धान एवं अन्य उपजों के उपार्जन के समय उनकी गुणवत्ता का परीक्षण किये जाने के लिए सर्वेयर' की नियुक्ति हेतु पात्र निविदाकारों से ऑनलाइन ई-निविदा वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जाती हैं। इस हेत पात्र सेवा प्रदाताओं से निर्धारित निविदा दस्तावेज जिसमें निविदा कार्यक्रम (समय-सीमा), निर्देशों, शर्तों, नियमों-प्रावधान का विस्तृत उल्लेख है, अनुसार आमंत्रित हैं।

निविदा दस्तावेज, नियम एवं शर्तों आदि का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in एवं www.mpscsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन भरने हेतु संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतू टोल फ्री नंबर 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-4200462 एवं 0120-6277787 पर संपर्क कर सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/105898/2022

प्रबंध संचालक

विषय :- परिवहन विभाग अंतर्गत अंतर्राज्यीय सीमा/प्रवर्तन हेतु उड़नदस्ता के द्वारा वाहनों के ओव्हरलोडिंग के जांच हेतु Weigh-Bridge क्रय एवं स्थापना करने के संबंध में।

सूचना

परिवहन विभाग अंतर्गत अंतर्राज्यीय सीमा/प्रवर्तन हेतु उड़नदस्ता के द्वारा वाहनों के ओव्हरलोडिंग के जांच हेतु Weigh-Bridge क्रय एवं स्थापना करने के संबंध में निविदा क्रमांक टीडी/05/टीसी/2022 जारी किया गया है। जिसमें निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 11.07.2022 रखा गया था तथा निविदा खोलने की तिथि 12.07.2022 रखी गई थी। साथ ही कर्मचारी संगठन की हड़ताल दिनांक 25.07.2022 से 29.07.2022 होने की वजह से कार्यालयीन कार्य प्रभावित रहा। अतः सचित किया जाता है कि जिन निविदाकारों द्वारा ऑनलाईन निविदा जमा किया गया है उन्हें परिवहन आयुक्त कार्यालय में दिनांक 12.08.2022 को समय 12.30 बजे तक निविदा शर्तों के अनुसार भौतिक दस्तावेज जमा किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही सूचित किया जाता है कि दिनांक 12.08.2022 को ही समय 03.00 बजे तकनीकी निविदा खोला जावेगा। अतः इच्छुक निविदाकार तकनीकी निविदा खोलने के समय उपस्थित रहें।

G-93499/2



सागरमाला डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (एसडीसीएल) (भारत सरकार का एक उपक्रम)

एसडीसीएल इच्छक पार्टियों से निम्नलिखित कार्यों में सहभागिता हेतु आवेदन आमंत्रित करती है: 1. वाहन स्क्रैपिंग में तटीय नौवहन की भूमिका निर्घारित करने हेतु एक व्यापक अध्ययन संचालित करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आरएफपी। 2. ब्लू इकोनोमी पहलों के लिए देश के भीतर विभिन्न सामुद्रिक पहलों के कार्यान्वयन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आरएफपी।

इच्छुक पार्टियां कार्यों के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए आरएफपी प्रलेख एसडीसीएल की वेबसाइट www.sdclindia.com से अथवा सेंटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) www.eprocure.gov.in से अथवा ई—निविदा वेबसाइट www.sdci.euniwizarde.com/ से डाउनलोड कर सकती हैं। उपरोक्त कार्यों के लिए सभी मावी संचार /शुद्धिपत्र केवल वेबसाइट www.sdclindia.com, एव

https://sdcl.euniwizarde.com/ पर जारी किए जाएंगे। किसी पूछताछ के लिए कृपया वित्त एवं लेखा सलाहकार, एसडीसीएल से audit@sdclindia.com पर

अथवा 011—21400754 पर सम्पर्क करें।

तिथि : 10 अगस्त, 2022

Œ.		दक्षिण पश्चिम			Amed in
		निविदा सूचना सं. 11/2022 वि			
		ओर से अधोहस्ताक्षरी निम्नांकित मदों की			
से इ	ई-निविदाएं आमं				मयः 14.00 बर्
毐.	निविदा सं.		मात्रा नियत तिथि		
1	30221684	यूआईसी वेस्टिबुले हेतु फुट प्लेट अरें	जमेंट	777 नग	22-08-2022
2	77221025C			28170 ली.	16-08-2022
3	29222034A		ग का सेट	36 सेट	05-09-2022
4	83221082	प्रि-पिंटिड टिकट पेपर रॉल्स		2935 97 रॉल्स	05-09-2022
5	38221304	बॉल्सटर स्प्रिंग आऊटर		2415 नग	06-09-2022
6	17221142	कन्ट्रोलर असेम्बली डायनामिक ब्रेक		18 नग	12-09-2022
7	L3225636	नेचुरल लाईट पाईप की आपूर्ति एवं स	थापन	200 नग	01-09-2022
8	L3225617	टॉप रेल		400 नग	01-09-2022
9	77221024A	पेट एल्यूमीनियम ब्रिशिंग		48260 ली.	29-08-2022
		निविदा सचना सं. 08/20:	22 हेत शब्दिपत्र		

निविदा सं. 33225010 हेतु - नियत तिथि को 26.07.2022 से 16.08.2022 में बदलाव विवरण हेतु लॉगऑन करें: www.ireps.gov.in

PUB/288/AAD/PRB/SWR/2022-23



Greater Noida Industrial Development Authority Plot No.1, Knowledge Park-IV, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, U.P.-20130

Ref. No.: Hort/2022-23/493

Dated: 04.08.2022

E-TENDER NOTICE

License Space for Nurseries in Greater Noida (Term - 5 years with provision of renewal for additional 3 years based on performance in 1-year increments)

Detailed RFP document is available on the E-Procurement Portal of Government of UP (https://etender.up.nic.in) from16.08.2022. The bid start date will be 16.08.2022. The prebid conference will be held on 19.08.2022 (01:00 pm) on Zoom (Meeting ID: 864 9042 4897; Passcode: 123456).

List of Nurseries available on License

Sr.	Location of the Nursery	Area (in sqm)	Reserved Price (exclusive of GST)* (INR per sqm per year)
1.	G-1, Alpha-l	15,769.65	37.94
2.	G-4, Alpha-II	23,758.92	37.94
3.	NR-1, Phi-IV	8,000.00	37.94
4.	NR-2, Phi-IV	8,100.00	37.94
5.	NR-3, Phi-IV	8,200.00	37.94
6.	NR-4, Phi-IV	7,200.00	37.94
7.	NR-5, Phi-IV	6,300.00	37.94
8.	NR-6, Phi-IV	6,000.00	37.94
9.	NR-7, Phi-IV	6,200.00	37.94
10.	NR-8, Phi-IV	6,200.00	37.94
11.	NR-9, Phi-IV	6,500.00	37.94
12.	NR-10, Phi-IV	6,300.00	37.94

Interested Applicants are required to apply online on the E-procurement website on or before 30.08.2022, 05:00 pm (IST). The bid opening will be on 01.09.2022, 11:00 am (IST). In case of any queries, the Bidders are invited to contact Senior Manager (Horticulture), GNIDA. Emailsmhorticulture@gnida.in; Phone: +91 1202336015 General Manager (Horticulture)

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकत कार्यालय : स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर-8, छठा तल, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 इमेलः vkjain@itdc.co.in, वेबसाइटः www.itdc.co.in सीआईएन नंबरः एल74899डीएल1965जीओआई004363

कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 यथा संशोधित (''नियम'') के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के इक्विटी शेयर जिसके संबंध में लामांश का भुगतान नहीं किया गया है या शेयरधारकों द्वारा लगातार सात (7) वर्षों या उससे अधिक के लिए दावा नहीं किया गया है, उसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (''प्राधिकरण'') के डीमैट खाते में स्थानांतरित नियमानुसार, कंपनी ने उन सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत सूचना / ई-मेल भेजे हैं, जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को

हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। कंपनी ने निवेशक अनुभाग के अंतर्गत, अपनी वेबसाइट www.itdc.co.in पर फोलियो संख्या या डीपी आईडी और क्लाइट आईडी और प्राधिकरण को हस्तांतरण के लिए देय इक्विटी शेयरों की संख्या सहित् ऐसे शेयरधारकों का पूरा विवरण अपलोड किया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि अप्रदत्त / दावा न किए गए लामांश और प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों के विवरण को सत्यापित करने के लिए उक्त वेबसाइट देखें। संबंधित शेयरधारक, भौतिक रूप में इक्विटी शेयर धारण करते हैं और जिनके शेयर प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए

उत्तरदायी हैं, वे ध्यान दें कि निगम मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, कंपनी उक्त को डीमैट शेयर रूप में परिवर्तित करने के लिए मूल शेयर प्रमाण–पत्र के बदले, नया शेयर प्रमाण–पत्र (पत्रों) को जारी करेगी; उसके बाद उक शेयर प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। शेयरधारक (शेयरधारकों) के नाम से पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण-पत्र स्वतः रह हो जाएगा (जाएंगे) और गैर-प्राप्य समझा जाएगा।

डीमैट रूप में धारित इक्विटी शेयरों के लिए कंपनी, प्राधिकरण के पक्ष में ऐसे शेयरों के हस्तांतरण के लिए कॉरपोरेट कारवाई के माध्यम से शेयरधारक के संबंधित डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

यदि कंपनी को 03 नवंबर, 2022 तक शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी नियमावली में निर्धारित आवश्यकता का पालन करने की दृष्टि से, ऐसे शेयरों को बिना किसी और सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगी। कृपया ध्यान दें कि प्राधिकरण को इस्तांतरित शेयरों, जिसमें ऐसे शेयरों पर सभी लाग शामिल हैं, के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा, यदि कोई हो, तो संबंधित शेयरधारक द्वारा नियमावली में निाधरित प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्राधिकरण से वापस लेने का दावा किया जा सकता है।

उपर्युक्त मामले के संबंध में, किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर—बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत — 500 032, फोन नंबर, 91 40 67161518 या **इंमेलः elnward.ris@kfintech.com** के रजिस्ट्रार और शैयर ट्रांसफर

कृते भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

ह / -(वी के जैन) कंपनी सचिव

MUNJAL *SHOWA* मुंजाल शोवा लिमिटेड

सीआईएनः L34101HR1985PLC020934

पंजीकृत कार्यालय एवं वर्क्सः प्लॉट न. 8-11, मारूति इंडस्ट्रियल एरिया, सैक्टर-18, गुरूग्राम-122015 (हरियाणा) फोनः +91-124-4783000; फैक्सः +91-124-2341359

ई-मेलः pgupta@munjalshowa.net; वेबसाइटः http://www.munjalshowa.net 30 जून, 2022 को समाप्त प्रथम तिमाही हेतु वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्धरण

(₹ लाखों में, प्रति अंश डाटा के अतिरिक्त)

酉.		समाप्त तीन माह	समाप्त वर्ष	समाप्त तीन माह
₹.	विवरण	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021
		(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	31,774.10	1,05,994.62	19,658.32
2	कर एवं विशिष्ट मदों के पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ	667.97	1,387.61	(280.22)
3	कर पूर्व एवं विशिष्ट मद पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ	33.77	1,387.61	(280.22)
4	कर पश्चात् एवं विशिष्ट मद पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ	30.48	1,215.02	(222.65)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (कर पश्चात्)	60.41	1,398.99	(222.65)
6	समता अंश पूँजी	799.93	799.93	799.93
7	31 मार्च, 2022 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व	-	-	-
8	प्रति अंश आय (₹ 2 प्रत्येक) (असाधारण मद⁄मदों के पश्चात्)	2.00	2.00	2.00
	– मूलभूत (रुपये में)	0.08	1.76	(0.56)
	– डाइल्यूटेड (रुपये में)	0.08	1.76	(0.56)
टिपा	₩.			

स्थान : गुरूग्राम

दिनाक : 9 अगस्त, 2022

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल किए गए त्रैमासिक वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों: www.nseindia.com एवं www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट http://www.munjalshowa.net पर उपलब्ध हैं। कृते एवं मंडल की ओर से

हस्ता. /-(योगेश चन्दर मुंजाल) प्रध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएनः 00003491

Follow Us On (a) (f) (b) (Official GNIDA